



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 34] नई दिल्ली, सितम्बर 04—सितम्बर 10, 2016, शनिवार/भाद्र 13—भाद्र 19, 1938

No. 34] NEW DELHI, SEPTEMBER 04—SEPTEMBER 10, 2016, SATURDAY/BHADRA 13—BHADRA 19, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 180(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समाज कल्याण विभाग (डिस्पैच राइडर, स्टाफ कार ड्राइवर और ज्येष्ठ गेस्टेटर ऑपरेटर) भर्ती नियम, 1969 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जहां तक उनका संबंध स्टाफ कार ड्राइवर से है, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड), स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II तथा स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-I के पदों पर भर्ती करने की सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग [स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-II तथा स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-I] समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स का स्तर वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :**

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पदनाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स का स्तर | चयन अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं |
|----------------------------------|--|---|---------------------------|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) | 5* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसूचिवीय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर-II | लागू नहीं होता | 18 से 25 वर्ष की आयु (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष तक की उम्र वाले सरकारी सेवकों को छूट दी जा सकती है) | आवश्यक : (i) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) मोटर कारों के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति का होना; | लागू नहीं |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>टिप्पण 1 : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लहोले व स्पीति जिला और चंबा जिले का पंगी सब-डिवीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख)।</p> <p>टिप्पण 2 : यदि सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की जानी है, तो आयु-सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।</p> | <p>(iii) मोटर मेकनिज्म का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान में होने वाली छोटी वुटियों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए); और</p> <p>(iv) कम से कम तीन वर्षों का मोटर कार चालन का अनुभव;</p> <p>वांछनीय : होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवी के रूप में तीन वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1 : अनुभव सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में, चयन की किसी भी प्रक्रम पर, यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या उपलब्ध रहने की संभावना नहीं है।</p> | |
|--|--|--|--|---|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|--|
| परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति अथवा आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है? | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|-------------------------------|---|--|---|--|

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|------------|
| सीधी भर्ती वाले अथवा पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। | प्रतिनियुक्ति/आमेलेन द्वारा, ऐसा न किए जाने पर, रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। | <p>प्रतिनियुक्ति/आमेलेन:</p> <p>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में नियमित डिस्पैच राइडर (समूह 'ग') या समूह 'ग' कर्मचारी, जिनके पास चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति हो ताकि मोटर कार चलाने संबंधी उनकी सक्षमता का आकलन किया जा सके, ऐसा न होने पर, स्तंभ (7 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने वाले केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर अथवा समूह 'ग' के नियमित कर्मचारी का पद धारित करने वाला कर्मिक।</p> <p>सशस्त्र बल कर्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा</p> | <p>समूह विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> उप सचिव या निदेशक (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) — अध्यक्ष अवर सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) — सदस्य अवर सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) — सदस्य | लागू नहीं। |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|----|--|----|----|
| | | <p>पुनर्नियोजन :- सशस्त्र बल के कर्मियों, जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं अथवा रिजर्व में रखे जाने हेतु स्थानांतरित किए जाने हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव एवं विहित अर्हता हैं, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तिथि को उन्हें सशस्त्र बल से कार्यमुक्त किया जाना है, उसके पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर सेवा में बनाए रखा जा सकता है।</p> <p>टिप्पण : केंद्रीय सरकार के एक ही अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की आखिरी तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|----------------------------------|---|---|--------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) | 2* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर-4 | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|-----------|-----------|--|--|-----------------|
| लागू नहीं | प्रोन्नति | <p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड), उक्त वेतन मैट्रिक्स में 9 वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> | <p>समूह विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप सचिव या निदेशक (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) — अध्यक्ष 2. अवर सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) — सदस्य 3. अवर सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) — सदस्य | लागू नहीं होता। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---------------------------------|---|---|--------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 3. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-1) | 1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर-5 | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|----------------|-----------|--|---|-----------------|
| लागू नहीं होता | प्रोन्नति | <p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II (साधारण श्रेणी), उक्त वेतन मैट्रिक्स में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्टाफ कार ड्राइवर-2 तथा स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) में 15 वर्ष की सम्मलित सेवा सहित तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> | <p>समूह विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होते हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप सचिव या निदेशक (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) — अध्यक्ष 2. अवर सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) — सदस्य 3. अवर सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) — सदस्य | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. ए-12018/6/2015-स्था. I]

दीपक कुमार साह, अवर सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department for Social Justice and Empowerment)**

New Delhi, the 7th September, 2016

G.S.R. 180(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Social Welfare (Despatch Rider, Staff Car Driver and Senior Gestetner Operator) Recruitment Rules, 1969, insofar as they relate to the post of Staff Car Driver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade-II, and Staff Car Driver Grade-I in the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Social Justice and Empowerment (Staff Car Driver Ordinary Grade, Staff Car Driver Grade-II, and Staff Car Driver Grade-I) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, Level in the Pay Matrix.**—The number of the said posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special category of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post | Number of posts | Classification | Level in the Pay Matrix | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualification required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees |
|--------------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. Staff Car Driver (Ordinary Grade) | 5* (2016) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level II in the Pay Matrix | Not applicable. | 18- 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, | Essential: (i) Pass in 10 th standard. (ii) Possessing a valid driving license for motor cars; (iii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); and (iv) Experience of driving a motor car for at least three years. | Not applicable. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p> <p>Note 2 : If the 'direct recruitment is to be made by 'Direct Open Competitive Examination, the age-limit shall be between 18 and 27 years.</p> | <p>Desirable:</p> <p>Three years service as Home Guard or Civil Volunteers.</p> <p>Note 1. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority.</p> <p>Note 2. In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them</p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

| Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? | Circumstances in which Services Commission is to be consulted in making recruitment |
|--|---|---|--|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Two years for direct recruits or re-employed | <p>Deputation/ absorption failing which by direct recruitment through Employment Exchange</p> <p>For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.</p> | <p>Deputation /Absorption:</p> <p>From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') or Group 'C' employees in Level 1 in the Pay Matrix in the Ministry of Social Justice and Empowerment who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Level 1 in the Pay Matrix in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p>Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications</p> | <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>1. Deputy Secretary or Director (Ministry of Social Justice and Empowerment) - Chairperson</p> <p>2. Under Secretary (Ministry of Social Justice and Empowerment) - Member</p> <p>3. Under Secretary (Ministry of Social Justice and Empowerment) - Member</p> | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|--------------------------------|--|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Staff Car Driver (Grade-II) | 2* (2015) * Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial | Level 4 in the Pay Matrix | Non- selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|----------------|-----------|---|--|-----------------|
| Not applicable | Promotion | Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level 2 in the Pay Matrix with nine years of regular service in the said Pay Matrix and have passed the trade test, specified by the Government | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Deputy Secretary/ Director (Ministry of Social Justice and Empowerment) - Chairperson 2. Under Secretary (Ministry of Social Justice and Empowerment) -Member 3. Under Secretary (Ministry of Social Justice and Empowerment) -Member. | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-------------------------------|---|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3. Staff Car Driver (Grade-I) | 1* (2015) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial | Level 5 in the Pay Matrix | Non- Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|----------------|-----------|--|---|-----------------|
| Not applicable | Promotion | Promotion: Staff Car Driver Grade- II in Level 4 in the Pay Matrix with six years of regular service in the said Pay Matrix or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government. | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Deputy Secretary/ Director (Ministry of Social Justice and Empowerment) - Chairperson 2. Under Secretary (Ministry of Social Justice and Empowerment) -Member 3. Under Secretary (Ministry of Social Justice and Empowerment) -Member | Not applicable. |

[F. No. A-12018/6/2015-Estt.I]

DEEPAK KUMAR SAH, Under Secy.